

[This question paper contains 2 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 5313

L

Unique Paper Code : 2414090010

Name of the Paper : Risk Management

Name of the Course : B.Com. (H) – CBCS

Semester : VIII

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 90

समय : 3 घण्टे

पूर्णांक : 90

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Attempt all **five** questions.
3. **All** questions carry equal marks.
4. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
2. सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।
3. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
4. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

1. (a) Define Risk. What is the difference between Risk and Uncertainty? Give two examples of each from a business context. (9)

OR

- (b) Distinguish between Business Risk and Financial Risk. Also explain Systematic and Unsystematic Risk with suitable examples. (9)
2. (a) What do you mean by identification of Business Risk? List and briefly explain any four common sources of Business Risk in an organisation. (10)

OR

- (b) What is the role of a Risk Manager in a business organisation? Write any four key responsibilities of a Risk Manager. (8)
3. (a) What is Risk Management? State its objectives and explain why it is important for a business. (9)

OR

- (b) Explain any three techniques of Risk Management. How does diversification help in reducing business risk? (9)

P.T.O.

4. (a) Explain the concept of Volatility in risk analysis. How is it measured and why is it important in business decision-making? (9)

OR

- (b) What is Stress Testing? Why do businesses conduct stress tests? Explain with a simple example. (9)
5. (a) Define Credit Risk. List its main components and explain why Credit Risk is important for lenders and businesses. (10)

OR

- (b) What is Financial Leverage? How does excessive financial leverage increase the credit risk of a firm? Explain with a brief example. (8)
1. (क) जोखिम को परिभाषित करें। जोखिम और अनिश्चितता में क्या अंतर है? व्यावसायिक संदर्भ से प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। (9)

या

- (ख) व्यावसायिक जोखिम और वित्तीय जोखिम में अंतर स्पष्ट कीजिए। साथ ही, उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्यवस्थित और अव्यवस्थित जोखिम की व्याख्या कीजिए। (9)
2. (क) व्यावसायिक जोखिम की पहचान से आपका क्या तात्पर्य है? किसी संगठन में व्यावसायिक जोखिम के किन्हीं चार सामान्य स्रोतों को सूचीबद्ध कीजिए और संक्षेप में उनकी व्याख्या कीजिए। (10)

या

- (ख) किसी व्यावसायिक संगठन में जोखिम प्रबंधक की क्या भूमिका होती है? जोखिम प्रबंधक के किन्हीं चार प्रमुख उत्तरदायित्वों को लिखिए। (8)
3. (क) जोखिम प्रबंधन क्या है? इसके उद्देश्यों को बताइए और समझाइए कि यह किसी व्यवसाय के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। (9)

या

- (ख) जोखिम प्रबंधन की किन्हीं तीन तकनीकों को समझाइए। विविधीकरण व्यावसायिक जोखिम को कम करने में कैसे सहायक होता है? (9)
4. (क) जोखिम विश्लेषण में अस्थिरता की अवधारणा को समझाइए। इसे कैसे मापा जाता है और व्यावसायिक निर्णय लेने में यह क्यों महत्वपूर्ण है? (9)

या

- (ख) स्ट्रेस टेस्टिंग क्या है? व्यवसाय स्ट्रेस टेस्ट क्यों करते हैं? एक सरल उदाहरण सहित समझाइए। (9)
5. (क) क्रेडिट जोखिम को परिभाषित कीजिए। इसके मुख्य घटकों को सूचीबद्ध कीजिए और समझाइए कि ऋणदाताओं और व्यवसायों के लिए क्रेडिट जोखिम क्यों महत्वपूर्ण है। (10)

या

- (ख) वित्तीय उत्तोलन क्या है? अत्यधिक वित्तीय उत्तोलन किसी फर्म के क्रेडिट जोखिम को कैसे बढ़ाता है? एक संक्षिप्त उदाहरण सहित समझाइए। (8)